

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14(ROAD)2019/एफसीए/प्रमुखसं./ 1115

दिनांक 22/07/2025

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:-Diversion of 4.896 ha. For Construction of road under
PMGSY Salawadkhurd to barodiya antari.

(Proposal No. FP/RJ/ROAD/41556/2019)

संदर्भ:-आपका पत्रांक प. 1(138) वन/2025 दिनांक 19.06.2025 के क्रम
में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी
गाइडलाइन FC-11/118/2021-FC दिनांक 14.11.2022 के पैरा 3 (i) के अनुसरण में यह
प्रस्ताव दिनांक 23.12.2022 (दिनांक 28.06.2022 के पश्चात) प्रस्तुत किया गया है।

अतः परिवेश 1.0 पोर्टल पर ही सम्पादित किया जाना हैं।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(के.सी.ए. अरुण प्रसाद)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi: 110003

Dated: 14th November, 2022

To

The Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Forests)
All States/UTs

Sub: Processing of proposals, in PARIVESH 1.0 for want of availability of complete end-to-end functionality of FC module in PARIVESH 2.0 as per the Forest (Conservation) Rules, 2022 – reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter of even number dated 18.07.2022 and 15.09.2022 on the above subject and to say that the progress made by the NIC to develop online facility in *Parivesh 2.0* for processing forest land diversion cases as per the Forest (Conservation) Rules, 2022 was reviewed in the Ministry.

2. It has been observed that many proposals in the PARIVESH 1.0 (proposals submitted by user agencies and accepted by the Nodal Officer (FCA)) are stuck up at various stages of processing in the State/UT and migration of such proposals to PARIVESH 2.0 may further delay the processing of these proposals. Similarly, proposals in PARIVESH 2.0 are also held up due to various technical issues.

3. Therefore, to resolve the situation, the Ministry has decided the following:

- i. Proposals submitted in PARIVESH 1.0 after 28.06.2022 and not migrated to PARIVESH 2.0, may be processed using the FC module of PARIVESH 1.0. However to adhere the procedures laid down in the Forest (Conservation) Rules, 2022, the minutes of the meeting of Project Steering Committee (PSC) may be attached with part-IV of forms and passing of proposals of less than 5 ha through Conservator of Forests, may be treated inert for procedural/technical purposes.
- ii. Till a time, the stabilization issues in PARIVESH 2.0 are resolved, new proposals may be submitted in PARIVESH 1.0 and their processing may be done as per arrangement mentioned under para 3 (i) above.
- iii. Proposals, already submitted in the PARIVESH 2.0 at various levels, may be processed in offline mode by the processing authorities of the State/UT concerned following the statutory process provided in the Forest (Conservation) Rules, 2022.
- iv. After rolling out of complete functionalities of the FC modules on PARIVESH

2.0, as envisaged in the Forest (Conservation) Rules, 2022, details of proposals processed in offline mode, as indicated under para 3 (iii) above, will be updated in the PARIVESH 2.0 by the authorities/user agency concerned.

In view of the above, I am directed to request the State Governments/UT Administrations to take appropriate action for processing such proposals and to accordingly inform the user agencies.

Yours faithfully,
Sd/-

Signed by Charan Jeet
Singh

Date: 14-11-2022 14:07:29

Reason: Approved

(Charan Jeet Singh)
Scientist D

Copy to:

1. The PCCF (HOFF), All States/UTs
2. Regional officers, All IROs of the Ministry
3. Addl. PCCF & Nodal Officer (FCA), O/o PCCF, All State/UTs
4. Sr. PPS to Secretary/PPS to DGF&SS/PPS to Addl. DGF(FC/PPS to AS(TK)
5. Director (Technical), NIC for information and necessary action
6. Guard File